



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-18122024-259489  
CG-TL-E-18122024-259489

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5035]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 16, 2024/ अग्रहायण 25, 1946

No. 5035]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 16, 2024/AGRAHAYANA 25, 1946

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 16 दिसम्बर, 2024

का. आ. 5442 (अ).— रेलवे अधिनियम 1989 (1989 का 24), की धारा 20ए की उप-धारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् आंध्र प्रदेश राज्य के एनटीआर जिले के 08 गांव (नंदिगामा राजस्व मंडल) में अमरावती होकर एरुपालेम – नंबूर स्टेशनों के बीच नई बड़ी लाइन के निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी इच्छा की घोषणा करता है:

उक्त भूमि में हितप्रद्ध कोई भी व्यक्ति, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा(I) के अंतर्गत उपर्युक्त उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के संबंध में सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, नंदिगामा को लिखित रूप में दी जाएगी और उसके आधारों को निर्धारित की जाएगी तथा सक्षम प्राधिकारी अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, नंदिगामा आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद तथा आगे ऐसी जांच करने के बाद, यदि सक्षम प्राधिकारी यह आवश्यक समझता है तो वह किसी आदेश द्वारा आपत्ति को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा (II) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी का कोई भी आदेश अंतिम होगा.

इस अधिसूचना में शामिल की गई भूमि की भू-योजनाएं और अन्य विवरण उपलब्ध है तथा इच्छुक व्यक्ति द्वारा उक्त सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में इनका निरीक्षण किया जा सकता है.

### अनुसूची

**भूमि अधिग्रहण का विवरण :** आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी को रेल कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु नंदिगामा मंडल के एनटीआर जिले में एरूपालेम – नंबूर स्टेशनों के बीच नई बीजी लाइन वाया अमरावती (56.53 किमी.).

क्र. सं.	मंडल का नाम	गांव का नाम	सर्वे सं.	आरएस सं./ एलपीएम	क्षेत्र की सीमा (एकड़ में)	क्षेत्र की सीमा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार (सरकारी / प्राइवेट)	भूमि की प्रकृति (आर्द्र / शुष्क)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कंचिकेर्ली	गोट्टुमुक्कला	1	431/1	0.18	0.0728	प्राइवेट	शुष्क
			2	430-2	0.51	0.2064	प्राइवेट	शुष्क
			3	433/1ए	0.3	0.1214	प्राइवेट	शुष्क
			4	433/1सी	2.07	0.8377	प्राइवेट	शुष्क
			5	438/1ए	0.81	0.3278	प्राइवेट	शुष्क
			6	438/1सी	0.58	0.2347	प्राइवेट	शुष्क
			7	438/2ए	0.39	0.1578	प्राइवेट	शुष्क
			8	438/2सी	0.12	0.0486	प्राइवेट	शुष्क
			9	545/3	0.17	0.0688	प्राइवेट	शुष्क
			10	545/4	0.49	0.1983	प्राइवेट	शुष्क
			11	545/5	0.76	0.3076	प्राइवेट	शुष्क
			12	543	3.67	1.4852	प्राइवेट	शुष्क
			13	544	0.33	0.1335	प्राइवेट	शुष्क
			14	542/1	0.21	0.0850	प्राइवेट	शुष्क
			15	542/2	0.21	0.0850	प्राइवेट	शुष्क
			16	542/3	5.16	2.0882	प्राइवेट	शुष्क
			17	537/1बी2	1.98	0.8013	प्राइवेट	शुष्क
			18	537/1सी2	0.57	0.2307	प्राइवेट	शुष्क
			19	537/2	4.14	1.6754	धर्मादय	शुष्क
			20	531	0.54	0.2185	धर्मादय	शुष्क
			21	532	1.54	0.6232	प्राइवेट	शुष्क
			22	515/1	1.05	0.4249	प्राइवेट	शुष्क
			23	515/2	0.91	0.3683	प्राइवेट	शुष्क

1	कंचिकवेर्ली	गोट्टमुक्कला	24	515/3	0.24	0.0971	प्राइवेट	शुष्क
			25	515/4	0.07	0.0283	प्राइवेट	शुष्क
			26	516/9	0.95	0.3845	प्राइवेट	शुष्क
			27	516/10	0.91	0.3683	प्राइवेट	शुष्क
			28	516/11	0.38	0.1538	प्राइवेट	शुष्क
			29	514/1	3.05	1.2343	प्राइवेट	शुष्क
			30	514/2बी	0.05	0.0202	प्राइवेट	शुष्क
			31	513	1.34	0.5423	प्राइवेट	शुष्क
			32	511	0.66	0.2671	प्राइवेट	शुष्क
			33	512	0.49	0.1983	प्राइवेट	शुष्क
			34	644/1	2.29	0.9267	प्राइवेट	शुष्क
			35	644/2	0.08	0.0324	प्राइवेट	शुष्क
			36	645/2	0.65	0.2630	प्राइवेट	शुष्क
			37	650/2ए	1.89	0.7649	प्राइवेट	शुष्क
			38	650/4ए	0.51	0.2064	प्राइवेट	शुष्क
			39	650/4सी	1.69	0.6839	प्राइवेट	शुष्क
			40	651/2	0.42	0.1700	प्राइवेट	शुष्क
			41	651/3	0.06	0.0243	प्राइवेट	शुष्क
			42	656/1ए	0.83	0.3359	प्राइवेट	शुष्क
			43	656/1बी	0.92	0.3723	प्राइवेट	शुष्क
			44	656/2	0.57	0.2307	प्राइवेट	शुष्क
			45	657/3	1.06	0.4290	प्राइवेट	शुष्क
			46	658	2.66	1.0765	प्राइवेट	शुष्क
			1	432	0.16	0.065	जीपी	पुंता
			2	431/2	0.02	0.008	जीपी	पीडब्ल्युडी केनाल
			3	433/1बी	0.1	0.040	जीपी	पीडब्ल्युडी केनाल
			4	434/1	0.33	0.134	जीपी	नहर
			5	438/1बी	0.19	0.077	जीपी	पीडब्ल्युडी केनाल
			6	538	0.47	0.190	जीपी	पुंता
			7	537/1ए1	0.26	0.105	जीपी	पीडब्ल्युडी केनाल
			8	641-1	0.33	0.134	जीपी	पुंता
			9	650/2बी	0.1	0.040	जीपी	पीडब्ल्युडी केनाल
			10	652-3	0.07	0.028	जीपी	पुंता

कुल					50.49	20.433		
2	कंचिकवेर्ली	परिडाला	1	724	0.003	0.0012	प्राइवेट	शुष्क
			2	728	1.471	0.5953	प्राइवेट	शुष्क
			3	730	3.694	1.4949	प्राइवेट	शुष्क
			4	732	0.379	0.1534	प्राइवेट	शुष्क
			5	788	0.072	0.0291	प्राइवेट	शुष्क
			6	789	1.188	0.4808	प्राइवेट	शुष्क
			7	790	1.934	0.7827	प्राइवेट	शुष्क
			8	791	0.88	0.3561	प्राइवेट	शुष्क
			9	792	0.948	0.3836	प्राइवेट	शुष्क
			10	793	0	0.0000	प्राइवेट	शुष्क
			11	798	0.131	0.0530	प्राइवेट	शुष्क
			12	799	1.293	0.5233	प्राइवेट	शुष्क
			13	801	0.975	0.3946	प्राइवेट	शुष्क
			14	803	0.721	0.2918	प्राइवेट	शुष्क
			15	908	0.647	0.2618	प्राइवेट	शुष्क
			16	909	0.333	0.1348	प्राइवेट	शुष्क
			17	910	0.285	0.1153	प्राइवेट	शुष्क
			18	912	0.33	0.1335	प्राइवेट	शुष्क
			19	913	0.088	0.0356	प्राइवेट	शुष्क
			20	914	0.088	0.0356	प्राइवेट	शुष्क
			21	915	0.084	0.0340	प्राइवेट	शुष्क
			22	916	0.083	0.0336	प्राइवेट	शुष्क
			23	917	0.082	0.0332	प्राइवेट	शुष्क
			24	918	0.081	0.0328	प्राइवेट	शुष्क
			25	919	0.344	0.1392	प्राइवेट	शुष्क
			26	920	0.281	0.1137	प्राइवेट	शुष्क
			27	921	0.088	0.0356	प्राइवेट	शुष्क
			28	922	1.557	0.6301	प्राइवेट	शुष्क
2	कंचिकवेर्ली	परिडाला	29	923	0.251	0.1016	प्राइवेट	शुष्क
			30	1010	0.1	0.0405	प्राइवेट	शुष्क
			31	1011	1.01	0.4087	प्राइवेट	शुष्क
			32	1179	0.023	0.0093	प्राइवेट	शुष्क

			33	1180	0.501	0.2027	प्राइवेट	शुष्क
			34	1183	0.621	0.2513	प्राइवेट	शुष्क
			35	1184	0.086	0.0348	प्राइवेट	शुष्क
			36	1221	1.092	0.4419	प्राइवेट	शुष्क
			37	1222	0.001	0.0004	प्राइवेट	शुष्क
			38	1223	0.673	0.2724	प्राइवेट	शुष्क
			39	1224	1.558	0.6305	प्राइवेट	शुष्क
			40	1228	0.31	0.1255	प्राइवेट	शुष्क
			41	1363	1.564	0.6329	प्राइवेट	शुष्क
			42	1364	0.057	0.0231	प्राइवेट	शुष्क
			43	1365	0.375	0.1518	प्राइवेट	शुष्क
			44	1366	0.379	0.1534	प्राइवेट	शुष्क
			45	1436	0.297	0.1202	प्राइवेट	शुष्क
			46	1437	1.83	0.7406	प्राइवेट	शुष्क
			47	1438	0.117	0.0473	प्राइवेट	शुष्क
			48	1442	0.237	0.0959	प्राइवेट	शुष्क
			49	1443	0.287	0.1161	प्राइवेट	शुष्क
			50	1444	1.496	0.6054	प्राइवेट	शुष्क
			51	1445	0.007	0.0028	प्राइवेट	शुष्क
			52	1447	2.349	0.9506	प्राइवेट	शुष्क
			53	2451	0.142	0.0575	प्राइवेट	शुष्क
			54	2452	0.2	0.0809	प्राइवेट	शुष्क
			55	2453	0.888	0.3594	प्राइवेट	शुष्क
			56	2454	0.171	0.0692	प्राइवेट	शुष्क
2	कंचिकवेर्ली	परिदाला	57	2512	0.783	0.3169	प्राइवेट	शुष्क
			58	2514	2.282	0.9235	प्राइवेट	शुष्क
			59	2516	1.013	0.4099	प्राइवेट	शुष्क
			60	2517	0.093	0.0376	प्राइवेट	शुष्क
			61	2520	1.867	0.7555	प्राइवेट	शुष्क
			62	2522	0.004	0.0016	प्राइवेट	शुष्क
			63	2523	0.072	0.0291	प्राइवेट	शुष्क
			64	2636	0.363	0.1469	प्राइवेट	शुष्क
			65	2641	0.992	0.4014	प्राइवेट	शुष्क

			66	2642	0.827	0.3347	प्राइवेट	शुष्क
			67	2648	0.268	0.1085	प्राइवेट	शुष्क
			68	2649	0.898	0.3634	प्राइवेट	शुष्क
			69	2650	0.034	0.0138	प्राइवेट	शुष्क
			70	2652	0.019	0.0077	प्राइवेट	शुष्क
			71	2653	0.435	0.1760	प्राइवेट	शुष्क
			72	2654	1.831	0.7410	प्राइवेट	शुष्क
			73	2657	0.041	0.0166	प्राइवेट	शुष्क
			74	2658	0.915	0.3703	प्राइवेट	शुष्क
			75	2659	0.353	0.1429	प्राइवेट	शुष्क
			76	2662	0.298	0.1206	प्राइवेट	शुष्क
			77	2663	1.607	0.6503	प्राइवेट	शुष्क
			78	2714	0.089	0.0360	प्राइवेट	शुष्क
			79	2715	0.883	0.3573	प्राइवेट	शुष्क
			80	2716	0.374	0.1514	प्राइवेट	शुष्क
			81	2718	0.385	0.1558	प्राइवेट	शुष्क
			82	2719	0.753	0.3047	प्राइवेट	शुष्क
			83	2758	0.026	0.0105	प्राइवेट	शुष्क
			84	2759	0.134	0.0542	प्राइवेट	शुष्क
2	कंचिकवेर्ली	परिदाला	85	2760	0.16	0.0647	प्राइवेट	शुष्क
			86	2761	0.197	0.0797	प्राइवेट	शुष्क
			87	2764	0.458	0.1853	प्राइवेट	शुष्क
			88	2765	0.485	0.1963	प्राइवेट	शुष्क
			89	2775	1.812	0.7333	प्राइवेट	शुष्क
			90	2776	0.79	0.3197	प्राइवेट	शुष्क
			91	2777	0.008	0.0032	प्राइवेट	शुष्क
			92	2785	0.033	0.0134	प्राइवेट	शुष्क
			93	2791	0.757	0.3063	प्राइवेट	शुष्क
			94	2793	0.135	0.0546	प्राइवेट	शुष्क
			95	2794	0.071	0.0287	प्राइवेट	शुष्क
			96	2795	0.021	0.0085	प्राइवेट	शुष्क
			97	2801	1.221	0.4941	प्राइवेट	शुष्क
			98	2846	0.586	0.2371	प्राइवेट	शुष्क

			99	3081	1.553	0.6285	प्राइवेट	शुष्क
			100	3082	0.792	0.3205	प्राइवेट	शुष्क
			101	3111	0.859	0.3476	प्राइवेट	शुष्क
			102	3112	0.385	0.1558	प्राइवेट	शुष्क
			103	3113	0.018	0.0073	प्राइवेट	शुष्क
			104	3130	0.472	0.1910	प्राइवेट	शुष्क
			105	3131	0.658	0.2663	प्राइवेट	शुष्क
			106	3132	0.388	0.1570	प्राइवेट	शुष्क
			107	3133	0.917	0.3711	प्राइवेट	शुष्क
			108	3134	0.677	0.2740	प्राइवेट	शुष्क
			1	707	0.009	0.0036	जीपी	नाला
			2	731	0.674	0.2728	जीपी	नाला
			3	733	0.145	0.0587	जीपी	झाड़ियां
			4	795	0.125	0.0506	जीपी	नहर
2	कंचिकवेर्ला	परियाला	5	796	0.067	0.0271	जीपी	नहर
			6	802	0.203	0.0822	जीपी	नहर
			7	924	0.202	0.0817	जीपी	झाड़ियां
			8	1006	2.942	1.1906	जीपी	घरों के साइट (अदालती मामला डब्ल्यूपी.8780/2020, डब्ल्यूपी 14631/2020, सीसी 450/2020 डब्ल्यूपी 24709/2021
			9	1007	0.217	0.0878	जीपी	झाड़ियां
			10	1229	0.165	0.0668	जीपी	झाड़ियां
			11	2449	0.498	0.2015	जीपी	झाड़ियां
			12	2450	0.242	0.0979	जीपी	झाड़ियां
			13	2509	0.82	0.3318	जीपी	राजमार्ग
			14	2521	0.25	0.1012	जीपी	नहर
			15	2651	0.001	0.0004	जीपी	नहर
			16	2996	0.091	0.0368	जीपी	राजमार्ग
कुल					72.425	29.3093		
3	वीरल्लपा	पेद्दापुरम	1	291	0.006	0.002	प्राइवेट	जीडी
			2	550	0.001	0	प्राइवेट	जीडी

			3	621	0.482	0.195	प्राइवेट	जीडी
			4	622	0.231	0.093	प्राइवेट	जीडी
			5	625	0.331	0.134	प्राइवेट	जीडी
			6	674	0.447	0.181	प्राइवेट	जीडी
			7	675	0.283	0.115	प्राइवेट	जीडी
			8	696	0.301	0.122	प्राइवेट	जीडी
			9	697	0.348	0.141	प्राइवेट	जीडी
			10	698	2.519	1.019	प्राइवेट	जीडी
			11	700	3.281	1.328	प्राइवेट	जीडी
			12	704	0.144	0.058	प्राइवेट	जीडी
			13	705	0.253	0.102	प्राइवेट	जीडी
3	वीरल्लपाडु	पेद्दापुरम	14	706	0.361	0.146	प्राइवेट	जीडी
			15	774	0.395	0.16	प्राइवेट	जीडी
			16	775	0.104	0.042	प्राइवेट	जीडी
			17	776	1.097	0.444	प्राइवेट	जीडी
			18	777	1.297	0.525	प्राइवेट	जीडी
			19	778	0.843	0.341	प्राइवेट	जीडी
			20	779	0.274	0.111	प्राइवेट	जीडी
			21	780	0.42	0.17	प्राइवेट	जीडी
			22	800	0.038	0.015	प्राइवेट	जीडी
			23	801	0.536	0.217	प्राइवेट	जीडी
			24	809	0.598	0.242	प्राइवेट	जीडी
			25	810	2.27	0.919	प्राइवेट	जीडी
			26	811	1.317	0.533	प्राइवेट	जीडी
			27	812	0.317	0.128	प्राइवेट	जीडी
			28	813	2.897	1.172	प्राइवेट	जीडी
			29	814	2.122	0.859	प्राइवेट	जीडी
			30	815	0.141	0.057	प्राइवेट	जीडी
			31	816	0.473	0.191	प्राइवेट	जीडी
			32	817	1.556	0.63	प्राइवेट	जीडी
			33	818	0.537	0.217	प्राइवेट	जीडी
			34	820	1.481	0.599	प्राइवेट	जीडी
			35	821	0.498	0.202	प्राइवेट	जीडी



			36	872	0.214	0.087	प्राइवेट	जीडी
			37	873	1.569	0.635	प्राइवेट	जीडी
			38	874	3.03	1.226	प्राइवेट	जीडी
			39	876	1.346	0.545	प्राइवेट	जीडी
			40	878	0.783	0.317	प्राइवेट	जीडी
			41	983	0.293	0.119	प्राइवेट	जीडी
3	वीरल्लपाडु	पेद्दापुरम	42	984	0.451	0.183	प्राइवेट	जीडी
			43	985	0.932	0.377	प्राइवेट	जीडी
			44	986	0.452	0.183	प्राइवेट	जीडी
			45	987	0.395	0.16	प्राइवेट	जीडी
			46	988	0.224	0.091	प्राइवेट	जीडी
			47	990	1.249	0.505	प्राइवेट	जीडी
			48	991	1.546	0.626	प्राइवेट	जीडी
			49	1056	0.415	0.168	प्राइवेट	जीडी
			50	1058	0.213	0.086	प्राइवेट	जीडी
			51	1060	0.343	0.139	प्राइवेट	जीडी
			52	1069	0.695	0.281	प्राइवेट	जीडी
			53	1070	0.347	0.14	प्राइवेट	जीडी
			54	1071	1.465	0.593	प्राइवेट	जीडी
			55	1086	0.564	0.228	प्राइवेट	जीडी
			56	1189	0.366	0.148	प्राइवेट	जीडी
			57	1232	0.209	0.085	प्राइवेट	जीडी
			58	1247	0.94	0.38	प्राइवेट	जीडी
			59	1250	0.01	0.004	प्राइवेट	जीडी
			60	1267	0.533	0.216	प्राइवेट	जीडी
			61	1376	0.036	0.015	प्राइवेट	जीडी
			62	1383	2.271	0.919	प्राइवेट	जीडी
			63	1384	0.01	0.004	प्राइवेट	जीडी
			64	1388	0.087	0.035	प्राइवेट	जीडी
			65	652	0.111	0.045	सरकारी	जीपी
			66	793	1.446	0.585	सरकारी	जीपी
			67	794	0.016	0.006	सरकारी	जीपी
			68	1018	0.162	0.066	सरकारी	जीपी

कुल					50.922	20.607		
4	वीरुल्लपाडु	गूडेम माधवरम	1	41	0.004	0.002	प्राइवेट	जीडी
			2	47	1.341	0.543	प्राइवेट	जीडी
			3	48	0.048	0.019	प्राइवेट	जीडी
			4	49	0.9	0.364	प्राइवेट	जीडी
			5	51	0.852	0.345	प्राइवेट	जीडी
			6	52	0.035	0.014	प्राइवेट	जीडी
			7	54	0.121	0.049	प्राइवेट	जीडी
			8	55	0.483	0.195	प्राइवेट	जीडी
			9	56	0.175	0.071	प्राइवेट	जीडी
			10	65	0.013	0.005	प्राइवेट	जीडी
			11	66	0.054	0.022	प्राइवेट	जीडी
			12	67	1.773	0.718	प्राइवेट	जीडी
			13	68	1.389	0.562	प्राइवेट	जीडी
			14	34	0.253	0.102	सरकारी	जीपी
			15	44	0.271	0.11	सरकारी	जीपी
कुल					7.712	3.121		
5	वीरुल्लपाडु	कुप्पूरु	1	400/1	0.79	0.32	प्राइवेट	जीडी
			2	400/3ए	0.54	0.219	प्राइवेट	जीडी
			3	400/3बी	0.51	0.206	प्राइवेट	जीडी
			4	405/1ए	1.57	0.635	प्राइवेट	जीडी
			5	405/1बी	0.94	0.38	प्राइवेट	जीडी
			6	405/3	0.9	0.364	प्राइवेट	जीडी
			7	405/4	0.01	0.004	प्राइवेट	जीडी
			8	406/2	0.14	0.057	प्राइवेट	जीडी
			9	406/3ए	0.39	0.158	प्राइवेट	जीडी
			10	406/3बी1	0.14	0.057	प्राइवेट	जीडी
			11	406/3बी2	0.1	0.04	प्राइवेट	जीडी
			12	406/5	0.2	0.081	प्राइवेट	जीडी
			13	406/6	0.68	0.275	प्राइवेट	जीडी
			14	410/7	1.4	0.567	प्राइवेट	जीडी
			15	411	0.56	0.227	प्राइवेट	जीडी
			16	412	1.64	0.664	प्राइवेट	जीडी

			17	413/4	0.57	0.231	प्राइवेट	जीडी
			18	413/5	0.43	0.174	प्राइवेट	जीडी
			19	493/1	0.03	0.012	प्राइवेट	जीडी
			20	493/2ए	0.63	0.255	प्राइवेट	जीडी
			21	475	4.26	1.724	प्राइवेट	जीडी
			22	476	3.2	1.295	प्राइवेट	जीडी
			23	471/1	0.01	0.004	प्राइवेट	जीडी
			24	471/2	0.86	0.348	प्राइवेट	जीडी
			25	456	0.88	0.356	प्राइवेट	जीडी
			26	457	1.63	0.66	प्राइवेट	जीडी
			27	458/1	0.65	0.263	प्राइवेट	जीडी
			28	458/2बी	0.62	0.251	प्राइवेट	जीडी
5	वीरल्लपाडु	बुज्जूर	29	458/2सी	0.99	0.401	प्राइवेट	जीडी
			30	459/2ए3	0.19	0.077	प्राइवेट	जीडी
			31	400/2	0.39	0.158	सरकारी	जीपी
			32	401	0.35	0.142	सरकारी	जीपी
			33	405/2	0.52	0.21	सरकारी	जीपी
			34	406/4	0.62	0.251	सरकारी	जीपी
			35	410/6	0.01	0.004	सरकारी	जीपी
			36	504	0.004	0.002	सरकारी	जीपी
			37	505	0.35	0.142	सरकारी	जीपी
			38	490	0.26	0.105	सरकारी	जीपी
			39	489	0.09	0.036	सरकारी	जीपी
			40	472	0.11	0.045	सरकारी	जीपी
				399	0.73	0.295	सरकारी	जीपी (असाइंड भूमि)
कुल				28.894	11.693			
6	वीरल्लपाडु	नरसिम्हाराव पालेम	1	469	0.124	0.05	प्राइवेट	जीडी
			2	476	0.369	0.15	प्राइवेट	जीडी
			3	477	0.552	0.22	प्राइवेट	जीडी
			4	478	0.61	0.25	प्राइवेट	जीडी
			5	621	0.705	0.29	प्राइवेट	जीडी
			6	467	0.292	0.12	प्राइवेट	जीडी

6	वीरुल्लपाडु		7	466	1.061	0.43	प्राइवेट	जीडी
			8	464	0.851	0.34	प्राइवेट	जीडी
			9	461	0.489	0.2	प्राइवेट	जीडी
			10	460	0.11	0.04	प्राइवेट	जीडी
			11	458	0.413	0.17	प्राइवेट	जीडी
			12	459	0.582	0.24	प्राइवेट	जीडी
			13	442	0.317	0.13	प्राइवेट	जीडी
			14	443	0.307	0.12	प्राइवेट	जीडी
		नरसिम्हाराव पालेम	15	444	0.329	0.13	प्राइवेट	जीडी
			16	419	0.387	0.16	प्राइवेट	जीडी
			17	420	0.039	0.02	प्राइवेट	जीडी
			18	422	0.362	0.15	प्राइवेट	जीडी
			19	423	2.407	0.97	प्राइवेट	जीडी
			20	424	0.048	0.02	प्राइवेट	जीडी
			21	337	0.542	0.22	प्राइवेट	जीडी
			22	568	0.205	0.08	प्राइवेट	जीडी
			23	394	0.178	0.07	प्राइवेट	जीडी
			24	393	0.023	0.01	प्राइवेट	जीडी
			25	339	0.308	0.12	प्राइवेट	जीडी
			26	340	0.024	0.01	प्राइवेट	जीडी
			27	374	0.423	0.17	प्राइवेट	जीडी
			28	373	1.099	0.44	प्राइवेट	जीडी
			29	372	0.355	0.14	प्राइवेट	जीडी
			30	628	0.354	0.14	प्राइवेट	जीडी
				629				
			31	370	0.396	0.16	प्राइवेट	जीडी
			32	353	0.098	0.04	प्राइवेट	जीडी
			33	356	0.489	0.2	प्राइवेट	जीडी
			34	355	1.986	0.8	प्राइवेट	जीडी
			35	475	0.072	0.03	सरकारी	जीपी
			36	474	0.12	0.05	सरकारी	जीपी
			37	426	0.227	0.09	सरकारी	जीपी
			38	407	0.192	0.08	सरकारी	जीपी

कुल					17.445	7.06		
7	वीरल्लपाडु	चेन्नाराव पालेम	1	627	0.065	0.026	पट्टा	जीडी
			2	626	0.806	0.326	पट्टा	जीडी
			3	625	0.054	0.022	पट्टा	जीडी
			4	624	0.066	0.027	पट्टा	जीडी
			5	623	0.086	0.035	पट्टा	जीडी
			6	622	0.305	0.123	पट्टा	जीडी
			7	621	0.473	0.191	पट्टा	जीडी
			8	620	0.292	0.118	पट्टा	जीडी
			9	619	0.267	0.108	पट्टा	जीडी
			10	618	0.231	0.093	पट्टा	जीडी
			11	609	0.281	0.114	पट्टा	जीडी
			12	617	0.305	0.123	पट्टा	जीडी
			13	610	0.581	0.235	पट्टा	जीडी
			14	615	0.39	0.158	पट्टा	जीडी
			15	612	0.549	0.222	पट्टा	जीडी
			16	613	0.31	0.125	पट्टा	जीडी
			17	614	0.205	0.083	पट्टा	जीडी
			18	521	0.467	0.189	पट्टा	जीडी
			19	520	0.15	0.061	पट्टा	जीडी
			20	523	0.151	0.061	पट्टा	जीडी
			21	524	0.057	0.023	पट्टा	जीडी
			22	525	0.033	0.013	पट्टा	जीडी
			23	526	0.299	0.121	पट्टा	जीडी
			24	527	0.599	0.242	पट्टा	जीडी
			25	504	0.179	0.072	पट्टा	जीडी
			26	505	0.125	0.051	पट्टा	जीडी
			27	506	0.005	0.002	पट्टा	जीडी
			28	510	0.364	0.147	पट्टा	जीडी
			29	509	0.151	0.061	पट्टा	जीडी
			30	508	0.245	0.099	पट्टा	जीडी
7	वीरल्लपाडु	चेन्नाराव पालेम	31	185	4.382	1.773	पट्टा	जीडी
			32	186	0.437	0.177	पट्टा	जीडी

			33	187	2.197	0.889	पट्टा	जीडी
			34	199	2.557	1.035	पट्टा	जीडी
			35	200	0.58	0.235	पट्टा	जीडी
			36	202	0.058	0.023	पट्टा	जीडी
			37	237	0.501	0.203	पट्टा	जीडी
			38	238	0.892	0.361	पट्टा	जीडी
			39	434	0.978	0.396	पट्टा	जीडी
			40	435	0.471	0.191	पट्टा	जीडी
			41	229	0.764	0.309	पट्टा	जीडी
			42	228	0.611	0.247	पट्टा	जीडी
			43	230	2.001	0.81	पट्टा	जीडी
			44	231	0.796	0.322	पट्टा	जीडी
			45	236	0.002	0.001	पट्टा	जीडी
			46	593	0.079	0.032	सरकारी	जीपी
			47	522	0.158	0.064	सरकारी	जीपी
			48	507	0.312	0.126	सरकारी	जीपी
			49	266	0.433	0.175	सरकारी	जीपी
			50	265	0.159	0.064	सरकारी	जीपी
कुल					26.459	10.708		
8	वीरल्लपाडु	अल्लूरु	1	1360	1.584	0.641	प्राइवेट	जीडी
			2	1361	3.434	1.39	प्राइवेट	जीडी
			3	1362	1.08	0.437	प्राइवेट	जीडी
			4	1363	1.063	0.43	प्राइवेट	जीडी
			5	1364	1.908	0.772	प्राइवेट	जीडी
			6	1365	5.712	2.312	प्राइवेट	जीडी
			7	1454	0.584	0.236	प्राइवेट	जीडी
8	वीरल्लपाडु	अल्लूरु	8	1441	1.308	0.529	प्राइवेट	जीडी
			9	1442	0.286	0.116	प्राइवेट	जीडी
			10	1366	2.631	1.065	प्राइवेट	जीडी
			11	1367	1.285	0.52	प्राइवेट	जीडी
			12	1368	0.263	0.106	प्राइवेट	जीडी
			13	1369	0.008	0.003	प्राइवेट	जीडी
			14	1440	0.249	0.101	प्राइवेट	जीडी

8	वीरुल्लपाडु	अल्लूरु	15	1443	0.014	0.006	प्राइवेट	जीडी
			16	1439	0.488	0.197	प्राइवेट	जीडी
			17	1371	0.353	0.143	प्राइवेट	जीडी
			18	1372	0.325	0.132	प्राइवेट	जीडी
			19	1438	0.362	0.147	प्राइवेट	जीडी
			20	1437	0.27	0.109	प्राइवेट	जीडी
			21	1436	0.288	0.117	प्राइवेट	जीडी
			22	1373	0.662	0.268	प्राइवेट	जीडी
			23	1381	0.195	0.079	प्राइवेट	जीडी
			24	1383	0.392	0.159	प्राइवेट	जीडी
			25	1419	0.015	0.006	प्राइवेट	जीडी
			26	1384	0.868	0.351	प्राइवेट	जीडी
			27	1385	0.281	0.114	प्राइवेट	जीडी
			28	1406	0.338	0.137	प्राइवेट	जीडी
			29	1407	0.855	0.346	प्राइवेट	जीडी
			30	1408	0.116	0.047	प्राइवेट	जीडी
			31	1732	0.013	0.005	प्राइवेट	जीडी
			32	1733	0.822	0.333	प्राइवेट	जीडी
			33	1734	0.686	0.278	प्राइवेट	जीडी
			34	1746	0.087	0.035	प्राइवेट	जीडी
			35	1747	0.872	0.353	प्राइवेट	जीडी
			36	1744	0.118	0.048	प्राइवेट	जीडी
			37	1745	0.101	0.041	प्राइवेट	जीडी
			38	1827	0.665	0.269	प्राइवेट	जीडी
			39	1850	0.302	0.122	प्राइवेट	जीडी
			40	1849	0.147	0.059	प्राइवेट	जीडी
			41	1848	0.789	0.319	प्राइवेट	जीडी
			42	1896	0.636	0.257	प्राइवेट	जीडी
			43	1897	0.207	0.084	प्राइवेट	जीडी
			44	1965	0.408	0.165	प्राइवेट	जीडी
			45	1966	0.872	0.353	प्राइवेट	जीडी
			46	1972	0.011	0.004	प्राइवेट	जीडी
			47	1973	0.756	0.306	प्राइवेट	जीडी

			48	1977	0.023	0.009	प्राइवेट	जीडी
			49	1978	0.708	0.287	प्राइवेट	जीडी
			50	2034	1.298	0.525	प्राइवेट	जीडी
			51	2033	0.595	0.241	प्राइवेट	जीडी
			52	2035	0.203	0.082	प्राइवेट	जीडी
			53	2038	0.658	0.266	प्राइवेट	जीडी
			54	2039	0.437	0.177	प्राइवेट	जीडी
			55	2042	0.093	0.038	प्राइवेट	जीडी
			56	2043	1.177	0.476	प्राइवेट	जीडी
			57	2044	1.139	0.461	प्राइवेट	जीडी
			58	2045	0.084	0.034	प्राइवेट	जीडी
			59	1359	0.397	0.161	सरकारी	जीपी
			60	1382	0.199	0.081	सरकारी	जीपी
			61	1462	0.032	0.013	सरकारी	जीपी
			62	1397	0.164	0.066	सरकारी	जीपी
			63	1414	0.49	0.198	सरकारी	जीपी
			64	1847	0.306	0.124	सरकारी	जीपी
			65	1898	0.254	0.103	सरकारी	जीपी
			66	1975	0.186	0.075	सरकारी	जीपी
कुल					43.152	17.464		
सकल योग					297.499	120.3954		

[फा. सं.: W.Con.182/SRP-15/NBR-YP/24-25/263/20A/161224]

पी.वी.एस. प्रसाद, मुख्य इंजीनियर / निर्माण-I

**MINISTRY OF RAILWAYS****(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad, the 16th December, 2024

**S.O. 5442(E).**—In exercise of the power conferred by sub-section (I) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred as the said Act), Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the special railway project, New BG line between Errupalem – Nambur stations via Amaravathi in 08 villages(Nandigama Revenue Division) in NTR District in the state of Andhra Pradesh hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub- section (I) of section 20D of the said act:



Every such objection, shall be made to the Competent Authority, namely Revenue Divisional Officer, Nandigama in writing and shall be set out the grounds there of and the Competent Authority and Revenue Divisional Officer, Nandigama shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

### SCHEDULE

**Description of lands in acquisition:** - New BG line between Errupalem - Nambur stations via Amaravathi (56.53 km) in NTR District, Nadigama Division for providing Rail connectivity to the capital of Andhra Pradesh.

SI. NO.	NAME OF THE MANDAL	NAME OF THE VILLAGE	S. NO.	RS NO. /LPM	EXTENT OF AREA (IN ACRES)	EXTENT OF AREA (IN HECTORS)	TYPE OF LAND (GOVT OR PVT)	NATURE OF LAND (WET OR DRY)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KANCHIKACHERLA	GOTTUMUKKALA	1	431/1	0.18	0.0728	PVT	DRY
			2	430-2	0.51	0.2064	PVT	DRY
			3	433/1A	0.3	0.1214	PVT	DRY
			4	433/1C	2.07	0.8377	PVT	DRY
			5	438/1A	0.81	0.3278	PVT	DRY
			6	438/1C	0.58	0.2347	PVT	DRY
			7	438/2A	0.39	0.1578	PVT	DRY
			8	438/2C	0.12	0.0486	PVT	DRY
			9	545/3	0.17	0.0688	PVT	DRY
			10	545/4	0.49	0.1983	PVT	DRY
			11	545/5	0.76	0.3076	PVT	DRY
			12	543	3.67	1.4852	PVT	DRY
			13	544	0.33	0.1335	PVT	DRY
			14	542/1	0.21	0.0850	PVT	DRY
			15	542/2	0.21	0.0850	PVT	DRY
			16	542/3	5.16	2.0882	PVT	DRY
			17	537/1B2	1.98	0.8013	PVT	DRY
			18	537/1C2	0.57	0.2307	PVT	DRY
			19	537/2	4.14	1.6754	Endowment	DRY
			20	531	0.54	0.2185	Endowment	DRY
			21	532	1.54	0.6232	PVT	DRY
			22	515/1	1.05	0.4249	PVT	DRY
			23	515/2	0.91	0.3683	PVT	DRY
			24	515/3	0.24	0.0971	PVT	DRY
			25	515/4	0.07	0.0283	PVT	DRY
			26	516/9	0.95	0.3845	PVT	DRY
			27	516/10	0.91	0.3683	PVT	DRY

			28	516/11	0.38	0.1538	PVT	DRY
1	KANCHIKACHERLA	GOTTUMUKKALA	29	514/1	3.05	1.2343	PVT	DRY
			30	514/2B	0.05	0.0202	PVT	DRY
			31	513	1.34	0.5423	PVT	DRY
			32	511	0.66	0.2671	PVT	DRY
			33	512	0.49	0.1983	PVT	DRY
			34	644/1	2.29	0.9267	PVT	DRY
			35	644/2	0.08	0.0324	PVT	DRY
			36	645/2	0.65	0.2630	PVT	DRY
			37	650/2A	1.89	0.7649	PVT	DRY
			38	650/4A	0.51	0.2064	PVT	DRY
			39	650/4C	1.69	0.6839	PVT	DRY
			40	651/2	0.42	0.1700	PVT	DRY
			41	651/3	0.06	0.0243	PVT	DRY
			42	656/1A	0.83	0.3359	PVT	DRY
			43	656/1B	0.92	0.3723	PVT	DRY
			44	656/2	0.57	0.2307	PVT	DRY
			45	657/3	1.06	0.4290	PVT	DRY
			46	658	2.66	1.0765	PVT	DRY
			1	432	0.16	0.065	GP	PUNTHA
			2	431/2	0.02	0.008	GP	PWD CANAL
			3	433/1B	0.1	0.040	GP	PWD CANAL
			4	434/1	0.33	0.134	GP	VAGU
			5	438/1B	0.19	0.077	GP	PWD CANAL
			6	538	0.47	0.190	GP	PUNTHA
			7	537/1A1	0.26	0.105	GP	PWD CANAL
			8	641-1	0.33	0.134	GD	VAGU
			9	650/2B	0.1	0.040	GP	PWD CANAL
			10	652-3	0.07	0.028	GP	PUNTHA
Village Total					50.49	20.433		
2	KANCHIKACHERLA	PARITALA	1	724	0.003	0.0012	PVT	DRY
			2	728	1.471	0.5953	PVT	DRY
			3	730	3.694	1.4949	PVT	DRY
			4	732	0.379	0.1534	PVT	DRY
			5	788	0.072	0.0291	PVT	DRY
			6	789	1.188	0.4808	PVT	DRY
			7	790	1.934	0.7827	PVT	DRY
			8	791	0.88	0.3561	PVT	DRY
			9	792	0.948	0.3836	PVT	DRY
			10	793	0	0.0000	PVT	DRY

			11	798	0.131	0.0530	PVT	DRY
			12	799	1.293	0.5233	PVT	DRY
			13	801	0.975	0.3946	PVT	DRY
			14	803	0.721	0.2918	PVT	DRY
			15	908	0.647	0.2618	PVT	DRY
			16	909	0.333	0.1348	PVT	DRY
			17	910	0.285	0.1153	PVT	DRY
			18	912	0.33	0.1335	PVT	DRY
			19	913	0.088	0.0356	PVT	DRY
			20	914	0.088	0.0356	PVT	DRY
			21	915	0.084	0.0340	PVT	DRY
			22	916	0.083	0.0336	PVT	DRY
			23	917	0.082	0.0332	PVT	DRY
			24	918	0.081	0.0328	PVT	DRY
			25	919	0.344	0.1392	PVT	DRY
			26	920	0.281	0.1137	PVT	DRY
			27	921	0.088	0.0356	PVT	DRY
			28	922	1.557	0.6301	PVT	DRY
2	KANCHIKACHERLA	PARITALA	29	923	0.251	0.1016	PVT	DRY
			30	1010	0.1	0.0405	PVT	DRY
			31	1011	1.01	0.4087	PVT	DRY
			32	1179	0.023	0.0093	PVT	DRY
			33	1180	0.501	0.2027	PVT	DRY
			34	1183	0.621	0.2513	PVT	DRY
			35	1184	0.086	0.0348	PVT	DRY
			36	1221	1.092	0.4419	PVT	DRY
			37	1222	0.001	0.0004	PVT	DRY
			38	1223	0.673	0.2724	PVT	DRY
			39	1224	1.558	0.6305	PVT	DRY
			40	1228	0.31	0.1255	PVT	DRY
			41	1363	1.564	0.6329	PVT	DRY
			42	1364	0.057	0.0231	PVT	DRY
			43	1365	0.375	0.1518	PVT	DRY
			44	1366	0.379	0.1534	PVT	DRY
			45	1436	0.297	0.1202	PVT	DRY
			46	1437	1.83	0.7406	PVT	DRY
			47	1438	0.117	0.0473	PVT	DRY
			48	1442	0.237	0.0959	PVT	DRY
			49	1443	0.287	0.1161	PVT	DRY
			50	1444	1.496	0.6054	PVT	DRY

			51	1445	0.007	0.0028	PVT	DRY
			52	1447	2.349	0.9506	PVT	DRY
			53	2451	0.142	0.0575	PVT	DRY
			54	2452	0.2	0.0809	PVT	DRY
			55	2453	0.888	0.3594	PVT	DRY
			56	2454	0.171	0.0692	PVT	DRY
2	KANCHIKACHERLA	PARITALA	57	2512	0.783	0.3169	PVT	DRY
			58	2514	2.282	0.9235	PVT	DRY
			59	2516	1.013	0.4099	PVT	DRY
			60	2517	0.093	0.0376	PVT	DRY
			61	2520	1.867	0.7555	PVT	DRY
			62	2522	0.004	0.0016	PVT	DRY
			63	2523	0.072	0.0291	PVT	DRY
			64	2636	0.363	0.1469	PVT	DRY
			65	2641	0.992	0.4014	PVT	DRY
			66	2642	0.827	0.3347	PVT	DRY
			67	2648	0.268	0.1085	PVT	DRY
			68	2649	0.898	0.3634	PVT	DRY
			69	2650	0.034	0.0138	PVT	DRY
			70	2652	0.019	0.0077	PVT	DRY
			71	2653	0.435	0.1760	PVT	DRY
			72	2654	1.831	0.7410	PVT	DRY
			73	2657	0.041	0.0166	PVT	DRY
			74	2658	0.915	0.3703	PVT	DRY
			75	2659	0.353	0.1429	PVT	DRY
			76	2662	0.298	0.1206	PVT	DRY
			77	2663	1.607	0.6503	PVT	DRY
			78	2714	0.089	0.0360	PVT	DRY
			79	2715	0.883	0.3573	PVT	DRY
			80	2716	0.374	0.1514	PVT	DRY
			81	2718	0.385	0.1558	PVT	DRY
			82	2719	0.753	0.3047	PVT	DRY
			83	2758	0.026	0.0105	PVT	DRY
			84	2759	0.134	0.0542	PVT	DRY
2	KANCHIKACHERLA	PARITALA	85	2760	0.16	0.0647	PVT	DRY
			86	2761	0.197	0.0797	PVT	DRY
			87	2764	0.458	0.1853	PVT	DRY
			88	2765	0.485	0.1963	PVT	DRY
			89	2775	1.812	0.7333	PVT	DRY
			90	2776	0.79	0.3197	PVT	DRY

			91	2777	0.008	0.0032	PVT	DRY
			92	2785	0.033	0.0134	PVT	DRY
			93	2791	0.757	0.3063	PVT	DRY
			94	2793	0.135	0.0546	PVT	DRY
			95	2794	0.071	0.0287	PVT	DRY
			96	2795	0.021	0.0085	PVT	DRY
			97	2801	1.221	0.4941	PVT	DRY
			98	2846	0.586	0.2371	PVT	DRY
			99	3081	1.553	0.6285	PVT	DRY
			100	3082	0.792	0.3205	PVT	DRY
			101	3111	0.859	0.3476	PVT	DRY
			102	3112	0.385	0.1558	PVT	DRY
			103	3113	0.018	0.0073	PVT	DRY
			104	3130	0.472	0.1910	PVT	DRY
			105	3131	0.658	0.2663	PVT	DRY
			106	3132	0.388	0.1570	PVT	DRY
			107	3133	0.917	0.3711	PVT	DRY
			108	3134	0.677	0.2740	PVT	DRY
			1	707	0.009	0.0036	GP	VAGU
			2	731	0.674	0.2728	GP	VAGU
			3	733	0.145	0.0587	GP	DONKA
			4	795	0.125	0.0506	GP	CANAL
2	KANCHIKACHERLA	PARITALA	5	796	0.067	0.0271	GP	CANAL
			6	802	0.203	0.0822	GP	CANAL
			7	924	0.202	0.0817	GP	DONKA
			8	1006	2.942	1.1906	GP	HOUSE SITES (Court Case WP.8780/2020, WP 14631/2020, CC 450/2020WP 24709/2021
			9	1007	0.217	0.0878	GP	DONKA
			10	1229	0.165	0.0668	GP	DONKA
			11	2449	0.498	0.2015	GP	DONKA
			12	2450	0.242	0.0979	GP	DONKA
			13	2509	0.82	0.3318	GP	NH ROAD
			14	2521	0.25	0.1012	GP	VAGU
			15	2651	0.001	0.0004	GP	VAGU
			16	2996	0.091	0.0368	GP	NH ROAD
Village Total					72.425	29.3093		
3	UL	PA	1	291	0.006	0.002	Pvt	GD

			2	550	0.001	0	Pvt	GD
			3	621	0.482	0.195	Pvt	GD
			4	622	0.231	0.093	Pvt	GD
			5	625	0.331	0.134	Pvt	GD
			6	674	0.447	0.181	Pvt	GD
			7	675	0.283	0.115	Pvt	GD
			8	696	0.301	0.122	Pvt	GD
			9	697	0.348	0.141	Pvt	GD
			10	698	2.519	1.019	Pvt	GD
			11	700	3.281	1.328	Pvt	GD
			12	704	0.144	0.058	Pvt	GD
			13	705	0.253	0.102	Pvt	GD
3	VEERULLAPADU	PEDDAPURAM	14	706	0.361	0.146	Pvt	GD
			15	774	0.395	0.16	Pvt	GD
			16	775	0.104	0.042	Pvt	GD
			17	776	1.097	0.444	Pvt	GD
			18	777	1.297	0.525	Pvt	GD
			19	778	0.843	0.341	Pvt	GD
			20	779	0.274	0.111	Pvt	GD
			21	780	0.42	0.17	Pvt	GD
			22	800	0.038	0.015	Pvt	GD
			23	801	0.536	0.217	Pvt	GD
			24	809	0.598	0.242	Pvt	GD
			25	810	2.27	0.919	Pvt	GD
			26	811	1.317	0.533	Pvt	GD
			27	812	0.317	0.128	Pvt	GD
			28	813	2.897	1.172	Pvt	GD
			29	814	2.122	0.859	Pvt	GD
			30	815	0.141	0.057	Pvt	GD
			31	816	0.473	0.191	Pvt	GD
			32	817	1.556	0.63	Pvt	GD
			33	818	0.537	0.217	Pvt	GD
			34	820	1.481	0.599	Pvt	GD
			35	821	0.498	0.202	Pvt	GD
			36	872	0.214	0.087	Pvt	GD
			37	873	1.569	0.635	Pvt	GD
			38	874	3.03	1.226	Pvt	GD
			39	876	1.346	0.545	Pvt	GD
			40	878	0.783	0.317	Pvt	GD
			41	983	0.293	0.119	Pvt	GD

3	VEERULLAPADU	PEDDAPURAM	42	984	0.451	0.183	Pvt	GD
			43	985	0.932	0.377	Pvt	GD
			44	986	0.452	0.183	Pvt	GD
			45	987	0.395	0.16	Pvt	GD
			46	988	0.224	0.091	Pvt	GD
			47	990	1.249	0.505	Pvt	GD
			48	991	1.546	0.626	Pvt	GD
			49	1056	0.415	0.168	Pvt	GD
			50	1058	0.213	0.086	Pvt	GD
			51	1060	0.343	0.139	Pvt	GD
			52	1069	0.695	0.281	Pvt	GD
			53	1070	0.347	0.14	Pvt	GD
			54	1071	1.465	0.593	Pvt	GD
			55	1086	0.564	0.228	Pvt	GD
			56	1189	0.366	0.148	Pvt	GD
			57	1232	0.209	0.085	Pvt	GD
			58	1247	0.94	0.38	Pvt	GD
			59	1250	0.01	0.004	Pvt	GD
			60	1267	0.533	0.216	Pvt	GD
			61	1376	0.036	0.015	Pvt	GD
			62	1383	2.271	0.919	Pvt	GD
			63	1384	0.01	0.004	Pvt	GD
			64	1388	0.087	0.035	Pvt	GD
			65	652	0.111	0.045	Govt	GP
			66	793	1.446	0.585	Govt	GP
			67	794	0.016	0.006	Govt	GP
			68	1018	0.162	0.066	Govt	GP
			Village Total					50.922
4	VEERULLAPADU	GUDENMADAVARAM	1	41	0.004	0.002	Pvt	GD
			2	47	1.341	0.543	Pvt	GD
			3	48	0.048	0.019	Pvt	GD
			4	49	0.9	0.364	Pvt	GD
			5	51	0.852	0.345	Pvt	GD
			6	52	0.035	0.014	Pvt	GD
			7	54	0.121	0.049	Pvt	GD
			8	55	0.483	0.195	Pvt	GD
			9	56	0.175	0.071	Pvt	GD
			10	65	0.013	0.005	Pvt	GD
			11	66	0.054	0.022	Pvt	GD

			12	67	1.773	0.718	Pvt	GD
			13	68	1.389	0.562	Pvt	GD
			14	34	0.253	0.102	GOVT	GP
			15	44	0.271	0.11	GOVT	GP
<b>Village Total</b>					<b>7.712</b>	<b>3.121</b>		
<b>5</b>	<b>VEERULLAPADU</b>	<b>JUJJURU</b>	1	400/1	0.79	0.32	Pvt	GD
			2	400/3A	0.54	0.219	Pvt	GD
			3	400/3B	0.51	0.206	Pvt	GD
			4	405/1A	1.57	0.635	Pvt	GD
			5	405/1B	0.94	0.38	Pvt	GD
			6	405/3	0.9	0.364	Pvt	GD
			7	405/4	0.01	0.004	Pvt	GD
			8	406/2	0.14	0.057	Pvt	GD
			9	406/3A	0.39	0.158	Pvt	GD
			10	406/3B1	0.14	0.057	Pvt	GD
			11	406/3B2	0.1	0.04	Pvt	GD
			12	406/5	0.2	0.081	Pvt	GD
			13	406/6	0.68	0.275	Pvt	GD
			14	410/7	1.4	0.567	Pvt	GD
			15	411	0.56	0.227	Pvt	GD
			16	412	1.64	0.664	Pvt	GD
			17	413/4	0.57	0.231	Pvt	GD
			18	413/5	0.43	0.174	Pvt	GD
			19	493/1	0.03	0.012	Pvt	GD
			20	493/2A	0.63	0.255	Pvt	GD
			21	475	4.26	1.724	Pvt	GD
			22	476	3.2	1.295	Pvt	GD
			23	471/1	0.01	0.004	Pvt	GD
			24	471/2	0.86	0.348	Pvt	GD
			25	456	0.88	0.356	Pvt	GD
			26	457	1.63	0.66	Pvt	GD
			27	458/1	0.65	0.263	Pvt	GD
			28	458/2B	0.62	0.251	Pvt	GD
<b>5</b>	<b>VEERULLAPADU</b>	<b>JUJJURU</b>	29	458/2C	0.99	0.401	Pvt	GD
			30	459/2A 3	0.19	0.077	Pvt	GD
			31	400/2	0.39	0.158	Govt	GP
			32	401	0.35	0.142	Govt	GP
			33	405/2	0.52	0.21	Govt	GP
			34	406/4	0.62	0.251	Govt	GP



			35	410/6	0.01	0.004	Govt	GP
			36	504	0.004	0.002	Govt	GP
			37	505	0.35	0.142	Govt	GP
			38	490	0.26	0.105	Govt	GP
			39	489	0.09	0.036	Govt	GP
			40	472	0.11	0.045	Govt	GP
				399	0.73	0.295	Govt	GP(Assignment land)
<b>Village Total</b>					<b>28.894</b>	<b>11.693</b>		
<b>6</b>	<b>VEERULAPADU</b>	<b>NARASIMHARAO PALEM</b>	1	469	0.124	0.05	PVT	GD
			2	476	0.369	0.15	PVT	GD
			3	477	0.552	0.22	PVT	GD
			4	478	0.61	0.25	PVT	GD
			5	621	0.705	0.29	PVT	GD
			6	467	0.292	0.12	PVT	GD
			7	466	1.061	0.43	PVT	GD
			8	464	0.851	0.34	PVT	GD
			9	461	0.489	0.2	PVT	GD
			10	460	0.11	0.04	PVT	GD
			11	458	0.413	0.17	PVT	GD
			12	459	0.582	0.24	PVT	GD
			13	442	0.317	0.13	PVT	GD
			14	443	0.307	0.12	PVT	GD
<b>6</b>	<b>VEERULAPADU</b>	<b>NARASIMHARAO PALEM</b>	15	444	0.329	0.13	PVT	GD
			16	419	0.387	0.16	PVT	GD
			17	420	0.039	0.02	PVT	GD
			18	422	0.362	0.15	PVT	GD
			19	423	2.407	0.97	PVT	GD
			20	424	0.048	0.02	PVT	GD
			21	337	0.542	0.22	PVT	GD
			22	568	0.205	0.08	PVT	GD
			23	394	0.178	0.07	PVT	GD
			24	393	0.023	0.01	PVT	GD
			25	339	0.308	0.12	PVT	GD
			26	340	0.024	0.01	PVT	GD
			27	374	0.423	0.17	PVT	GD
			28	373	1.099	0.44	PVT	GD
			29	372	0.355	0.14	PVT	GD
			30	628	0.354	0.14	PVT	GD
				629				

			31	370	0.396	0.16	PVT	GD
			32	353	0.098	0.04	PVT	GD
			33	356	0.489	0.2	PVT	GD
			34	355	1.986	0.8	PVT	GD
			35	475	0.072	0.03	GOVT	GP
			36	474	0.12	0.05	GOVT	GP
			37	426	0.227	0.09	GOVT	GP
			38	407	0.192	0.08	GOVT	GP
<b>Village Total</b>					<b>17.445</b>	<b>7.06</b>		
<b>7</b>	<b>VEERULAPADU</b>	<b>CHENNARAO PALEM</b>	1	627	0.065	0.026	PATTA	GD
			2	626	0.806	0.326	PATTA	GD
			3	625	0.054	0.022	PATTA	GD
			4	624	0.066	0.027	PATTA	GD
			5	623	0.086	0.035	PATTA	GD
			6	622	0.305	0.123	PATTA	GD
			7	621	0.473	0.191	PATTA	GD
			8	620	0.292	0.118	PATTA	GD
			9	619	0.267	0.108	PATTA	GD
			10	618	0.231	0.093	PATTA	GD
			11	609	0.281	0.114	PATTA	GD
			12	617	0.305	0.123	PATTA	GD
			13	610	0.581	0.235	PATTA	GD
			14	615	0.39	0.158	PATTA	GD
			15	612	0.549	0.222	PATTA	GD
			16	613	0.31	0.125	PATTA	GD
			17	614	0.205	0.083	PATTA	GD
			18	521	0.467	0.189	PATTA	GD
			19	520	0.15	0.061	PATTA	GD
			20	523	0.151	0.061	PATTA	GD
			21	524	0.057	0.023	PATTA	GD
			22	525	0.033	0.013	PATTA	GD
			23	526	0.299	0.121	PATTA	GD
			24	527	0.599	0.242	PATTA	GD
			25	504	0.179	0.072	PATTA	GD
			26	505	0.125	0.051	PATTA	GD
			27	506	0.005	0.002	PATTA	GD
			28	510	0.364	0.147	PATTA	GD
			29	509	0.151	0.061	PATTA	GD
			30	508	0.245	0.099	PATTA	GD
<b>7</b>	<b>VEERULAPADU</b>	<b>CHENNARAO PALEM</b>	31	185	4.382	1.773	PATTA	GD

			32	186	0.437	0.177	PATTA	GD
			33	187	2.197	0.889	PATTA	GD
			34	199	2.557	1.035	PATTA	GD
			35	200	0.58	0.235	PATTA	GD
			36	202	0.058	0.023	PATTA	GD
			37	237	0.501	0.203	PATTA	GD
			38	238	0.892	0.361	PATTA	GD
			39	434	0.978	0.396	PATTA	GD
			40	435	0.471	0.191	PATTA	GD
			41	229	0.764	0.309	PATTA	GD
			42	228	0.611	0.247	PATTA	GD
			43	230	2.001	0.81	PATTA	GD
			44	231	0.796	0.322	PATTA	GD
			45	236	0.002	0.001	PATTA	GD
			46	593	0.079	0.032	GOVT	GP
			47	522	0.158	0.064	GOVT	GP
			48	507	0.312	0.126	GOVT	GP
			49	266	0.433	0.175	GOVT	GP
			50	265	0.159	0.064	GOVT	GP
			<b>Village Total</b>		<b>26.459</b>	<b>10.708</b>		
8	VEERULLAPADU	ALLURU	1	1360	1.584	0.641	Pvt	GD
			2	1361	3.434	1.39	Pvt	GD
			3	1362	1.08	0.437	Pvt	GD
			4	1363	1.063	0.43	Pvt	GD
			5	1364	1.908	0.772	Pvt	GD
			6	1365	5.712	2.312	Pvt	GD
			7	1454	0.584	0.236	Pvt	GD
			8	1441	1.308	0.529	Pvt	GD
			9	1442	0.286	0.116	Pvt	GD
			10	1366	2.631	1.065	Pvt	GD
			11	1367	1.285	0.52	Pvt	GD
			12	1368	0.263	0.106	Pvt	GD
			13	1369	0.008	0.003	Pvt	GD
			14	1440	0.249	0.101	Pvt	GD
			15	1443	0.014	0.006	Pvt	GD
			16	1439	0.488	0.197	Pvt	GD
			17	1371	0.353	0.143	Pvt	GD
			18	1372	0.325	0.132	Pvt	GD
			19	1438	0.362	0.147	Pvt	GD
			20	1437	0.27	0.109	Pvt	GD

8	VEERULLAPADU	ALLURU	21	1436	0.288	0.117	Pvt	GD
			22	1373	0.662	0.268	Pvt	GD
			23	1381	0.195	0.079	Pvt	GD
			24	1383	0.392	0.159	Pvt	GD
			25	1419	0.015	0.006	Pvt	GD
			26	1384	0.868	0.351	Pvt	GD
			27	1385	0.281	0.114	Pvt	GD
			28	1406	0.338	0.137	Pvt	GD
			29	1407	0.855	0.346	Pvt	GD
			30	1408	0.116	0.047	Pvt	GD
			31	1732	0.013	0.005	Pvt	GD
			32	1733	0.822	0.333	Pvt	GD
			33	1734	0.686	0.278	Pvt	GD
			34	1746	0.087	0.035	Pvt	GD
			35	1747	0.872	0.353	Pvt	GD
			36	1744	0.118	0.048	Pvt	GD
			37	1745	0.101	0.041	Pvt	GD
			38	1827	0.665	0.269	Pvt	GD
			39	1850	0.302	0.122	Pvt	GD
			40	1849	0.147	0.059	Pvt	GD
			41	1848	0.789	0.319	Pvt	GD
			42	1896	0.636	0.257	Pvt	GD
			43	1897	0.207	0.084	Pvt	GD
			44	1965	0.408	0.165	Pvt	GD
			45	1966	0.872	0.353	Pvt	GD
			46	1972	0.011	0.004	Pvt	GD
			47	1973	0.756	0.306	Pvt	GD
			48	1977	0.023	0.009	Pvt	GD
			49	1978	0.708	0.287	Pvt	GD
			50	2034	1.298	0.525	Pvt	GD
			51	2033	0.595	0.241	Pvt	GD
			52	2035	0.203	0.082	Pvt	GD
			53	2038	0.658	0.266	Pvt	GD
			54	2039	0.437	0.177	Pvt	GD
			55	2042	0.093	0.038	Pvt	GD
			56	2043	1.177	0.476	Pvt	GD
			57	2044	1.139	0.461	Pvt	GD
			58	2045	0.084	0.034	Pvt	GD
			59	1359	0.397	0.161	Govt	GP
			60	1382	0.199	0.081	Govt	GP

			61	1462	0.032	0.013	Govt	GP
			62	1397	0.164	0.066	Govt	GP
			63	1414	0.49	0.198	Govt	GP
			64	1847	0.306	0.124	Govt	GP
			65	1898	0.254	0.103	Govt	GP
			66	1975	0.186	0.075	Govt	GP
<b>Village Total</b>					<b>43.152</b>	<b>17.464</b>		
<b>Grand Total</b>					<b>297.499</b>	<b>120.3954</b>		

[F. No. : W.Con.182/SRP-15/NBR-YP/24-25/263/20A/161224]

P.V. S. PRASAD, Chief Engineer/Con-I